

गूँज फ़ेलोशिप - ग्रास रूट्स अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. गूँज ग्रास रूट्स फ़ेलोशिप ज़रूरी क्यूँ हैं ?

शहरों के युवाओं के लिए विकास के क्षेत्र में अधिकतर अवसर और संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं। चाहे वह प्रशिक्षण कार्यशालाएं हों, सम्मेलन हों, फ़ेलोशिप हों, संसाधनों तक पहुंच हों, नए विचारों से परिचित होना हो या कोई राह दिखाने वाला हो, शहरी युवाओं के लिए यह सब सुविधाएं प्राप्त करना मुश्किल नहीं। लेकिन वह ग्रामीण युवा ही हैं जो छोटे जिलों या कज्जबों से आते हैं और शहर या गांवों में जाकर ग्रास रूट्स स्तर पर काम करते हैं, एवं विकास कार्यों के लिए असल सिपाहीयों की भूमिका निभाते हैं।

गूँज की ग्रास रूट्स फ़ेलोशिप का उद्देश्य युवाओं के इस दृढ़-संकल्प तक पहुंचना एवं उनके विकास और अच्छी ट्यूनिंग के लिए एक आधार तैयार करना है। हमारा लक्ष्य युवाओं की समाज के प्रति सोच को, जैसे विभिन्न प्रकार के लोगों को समझना, सबसे कठिन परिस्थितियों में काम करने की उनकी क्षमता एवं समाज को बेहतर बनाने की उनकी भूक को अहमियत देना है। वह युवा उस बदलाव को लाने के लिए गहरी निष्ठा रखता है। इस कारण उनके व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास पर बारीकी से काम करना ज़रूरी होता है। यह सुनिश्चित करता है की आने वाले दिनों में विकास क्षेत्र करने के लिए वह लोग काम करेंगे जिनमें सामाजिक और अन्य विविध मुद्दों पर लंबे समय तक काम करने का कौशल, मानसिकता और दृढ़-संकल्प है।

2. गूँज ग्रास रूट्स फ़ेलोशिप क्या है और यह कैसे काम करती है?

गूँज ग्रास रूट्स फ़ेलोशिप एक साल तक चलने वाला कार्यक्रम है, जहाँ फ़ेलों ग्रास रूट्स पर समुदायों के साथ जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में काम करेंगे। विचार यह है कि गूँज विभिन्न हस्तक्षेप क्षेत्रों में क्या करता है इसका करीबी अनुभव फ़ेलों को दिया जाए। एक वर्ष के दौरान, फ़ेलो गांवों के साथ-साथ शहरों के विभिन्न समुदायों से बातचीत करते हैं और वास्तविकताओं की गहरी समझ प्राप्त करते हैं और समुदाय के लोगों के साथ मिलकर समुदाय की जरूरतों पर काम करते हैं।

चयन प्रक्रिया के बाद, पूरी तरह से शामिल करने की प्रक्रिया होगी, जहाँ फ़ेलो को गूँज और उसके संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके बाद, वे अपने स्थानों से विभिन्न गूँज पहलों पर काम करेंगे।

3. फ़ेलों किन गतिविधियों में शामिल होंगे?

फ़ेलोशिप में दो चरण होंगे जो गूँज के कार्य क्षेत्रों के संरेखण में डिजाइन किए गए हैं। प्रारंभिक चरण में, फ़ेलो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गूँज के टीम के अनुभवी सदस्यों के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि संचालन, पहल, सामुदायिक जुड़ाव और संचार रणनीति के बारे में समझ सकें और सीख सकें।

दूसरे चरण में, फ़ेलो व्यक्तिगत रूप से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संसाधन प्रबंधन, माहवारी के समय स्वास्थ्य और स्वच्छता, आजीविका, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा राहत और पुनर्वास पर समुदायों को शामिल करके और स्थानीय ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करके पहल करेंगे।

4. फ़ेलोशिप के दौरान फ़ेलों को कहाँ रखा जाएगा?

गूँज का संचालन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, जिसमें कई जगहों में हमारा कार्य क्षेत्र स्थापित हैं। ग्रास रूट्स फ़ेलो को उनके अपने क्षेत्रों में ही रखा जाएगा यदि गूँज का काम वहाँ होता है। यदि हमारे पास उस राज्य/क्षेत्र में संचालन नहीं है जहां से फ़ेलो का चयन किया गया है तो फ़ेलो को शहरी/ग्रामीण कार्य क्षेत्रों में से एक में रखा जाएगा जहां गूँज का संचालन भी होता है और जहा की भाषा के साथ वह सहज है। जिस क्षेत्र में उनहे उसके आधार पर उन्हें संबंधित काम में लगाया जाएगा। और पूरे फ़ेलोशिप में वह एक ही स्थान से काम करेंगे।

5. ऐप्लिकेशन की प्रक्रिया क्या है?

चरण 1: ऐप्लिकन्ट ऑनलाइन ऐप्लिकेशन जमा कर सकते हैं।
ऐप्लिकेशन पत्र के लिए <https://forms.gle/5Nxhek9qHHfLmoFD6> देखें।

महत्वपूर्ण नोट: ऐप्लिकेशन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। यदि आप किसी अन्य भाषा में सहज हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आवेदन पत्र भरने के लिए हिंदी या अंग्रेजी जानने वाले किसी भी व्यक्ति की मदद लें।

चरण 2: शॉर्टलिस्ट किए गए ऐप्लिकन्ट अंतिम इंटरव्यू की ओर बढ़ेंगे।

6. कौन ऐप्लिकेशन भरने योग्य है?

योग्यता: न्यूनतम मैट्रिक

आयु: 21 से 35 वर्ष, 15 दिसंबर, 2021 को।

केवल भारतीय नागरिक भर सकते हैं।

7. क्या फ़ेलोशिप के दौरान फ़ेलो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है?

यदि कोई फ़ेलो ओपन स्कूलिंग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो वह फ़ेलोशिप के कार्य को बिना प्रभावित करे अपनी शिक्षा जारी रख सकता है। हालाँकि, फ़ेलो फ़ेलोशिप के दौरान नियमित सूत्रों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

8. क्या फ़ेलोशिप के दौरान फ़ेलो को स्टाइपेन्ड और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे?

- हां, फ़ेलो को मासिक स्टाइपेन्ड मिलता है। 10,000/- से 12,000/-
- रहने और खाने का खर्च फ़ेलो को स्वयं उठाना होगा।
- क्षेत्र यात्रा के दौरान किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जाएगी।

9. अगर मुझे किसी कारण से फ़ेलोशिप बीच में छोड़ना पड़ा तो क्या होगा?

यदि कोई फ़ेलो फ़ेलोशिप बीच में छोड़ देता है, तो उसे 15 दिनों की नोटिस अवधि देनी होगी अन्यथा 15 दिनों का स्टाइपेन्ड रोक दिया जाएगा। और अगर वह किसी भी समय फ़ेलोशिप छोड़ता है तो उसे कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।

10. क्या फ़ेलोशिप के दौरान कोई फ़ेलो दूसरी कोई नौकरी कर सकता है?

नहीं, फ़ेलोशिप एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है और फ़ेलोशिप के दौरान फ़ेलो कोई अन्य नौकरी नहीं कर सकता है।